

(GOVT. RECOGNISED EXPORT HOUSE)
REGD. OFFICE: DD-14, NEHRU ENCLAVE,
OPP. KALKAJI POST OFFICE, NEW DELHI-110019)
TELEPHONE:(011) 26236986
FAX: (011) 26465227
CIN No: L18101 DL1989PLC034528

Date: 08.09.2022

To, Corporate Relation Department BSE Ltd. 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai -400001

Scrip Code: 531952/Equity

Dear Sir(s)

Sub: Submission of newspaper Publication in Compliance with SEBI (Listing Obligations and Requirements) Regulations, 2015.

Please find enclosed herewith Newspaper Publication of Notice of 34th Annual General Meeting, Evoting Schedule, Record/Cut-off Date and Book Closure of Register of Members & Share Transfer Books for the purpose of the said AGM published in Financial Express and Jansatta on 08th September, 2022, in compliance with Regulation 47 & 30 and other regulation if any, of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

We request you to please take the above on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully, For Riba Textiles Limited

NEHA Digitally signed by NEHA DUBEY Date: 2022,09.08 17:26:26 +05'30'

(Neha Dubey) Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

### AJANTA SOYA LIMITED

CIN L15494RJ1992PLC016617 Regd. Office: SP- 916, Phase-III, Industrial Area, Distt. Alwar, Bhiwadi 301 019, Rajasthan

> Corp. Office: 12th Floor, Bigjo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi-110 034 Ph. No. 91-11-42515151, Fax: 91-11-42515100 Website: www.ajantasoya.com, E-mail: cs@ajantasoya.com

## BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 31" Annual General Meeting (AGM) or the Members of Ajanta Sc Limited will be held on Friday, 30th September, 2022 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January 2021, 8th December, 2021, 14th December 2021 and 5th May, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars" and Circulars dated 12th May 2020, 15th January 2021 and 13th May, 2022 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), without the physical presence of Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM facility only. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013

n Compliance with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 31st AGM and the Annual Report 2021-22 have been sent by e-mail on Wednesday, 7th September 2022 to those member whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant/s.

The Notice of the 31th AGM and the Annual Report 2021-22 can be downloaded from the Company's website at www.ajantasoya.com and the website of the stock exchange where the shares of the Company is listed i.e. www.bseindia.com as well as on the website of National Securities Depositor Limited i.e. www.evoting.nsdl.com. Notice of the AGM is also available on the website of NSDI www.evoting.nsdl.com.

Instruction of Remote E-voting and E-Voting during AGM: Pursuant to the provisions of Section 198 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules'), the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"), the Company is pleased to provide its shareholders facility of remote E-Voting and E-voting during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed National Securities Depository Limited ('NSDL') for facilitating voting through electronic means.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the 31st AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the 31st AGM.

The Remote e-Voting will commence at 9:00 a.m. (IST) on Tuesday, 27th September, 2022 and w end at 5:00 p.m. (IST) on Thursday, 29th September, 2022. During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

31" AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend and participate in the 31" AGM through VC/OAVM means, but shall not be entitled to cast their e-vote again. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it

The instructions for attending the AGM through VC/OAVM facility are provided in the Notice of

subsequently. The Cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Friday, 23th September, 2022. Voting rights shall be reckpried on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as on the Cut-off date

Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending the Notice of the AGM by email and holding shares as of the Cut-off date i.e. Friday. 23rd September, 2022, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if any person is already registered with NSDL for remote e-Voting. he can use his existing User ID and Password for casting his vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his Password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on Toll free no.: 1800-1020-990 and 1800-22-44-30. In case of any queries / grievances connected with electronic voting, members may refer the

Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-Voting user manual for nareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no 1800-1020-990 and 1800-22-44-30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or contact to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World - A Wing, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013. The Members, who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail ID

with the Company/RTA can cast their vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM by registering their e-mail ID. The process and manner of remote e-voting and e-voting during the AGM for members holding shares in dematerialised and physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM

Mr. Debabrata Deb Nath (Membership No. FCS 7775), Company Secretary in Whole-time Practice of M/s R & D Company Secretaries, Delhi, has been appointed as the Scrutinizer for conducting e-voting process in a fair and transparent manner.

Book Closure: Pursuant to the provision of section 91 of the Companies Act 2013 and rules made there under, and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer book of the Company will remain closed from Saturday, 24th September 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 31rd Annual General Meeting to be held on Friday, 30th September, 2022 at 12:30 P.M. (IST).

For Ajanta Soya Limited Sushil Goyal (Managing Director) Place: New Delhi Date: 7th September, 2022 DIN: 00125275)

## MGF THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED REGD. OFFICE: MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi-110002

Phone No.: 23272216-18, 23276872 Fax No.: 23274606 E-mail: mgfltd@ hotmail.com Website: http://www.mgfltd.com CIN No.:L74899DL1930PLC000208 | GST No.: 07AAACT2356D2ZN

## NOTICE

INFORMATION REGARDING 9210 ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS

NOTICE is hereby given that the 92 Annual General Meeting ("AGM") of the Members of The Motor & General Finance Limited scheduled to be held on Wednesday, the September 28, 2022 at 11.30 A.M. at the Registered Office i.e. MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of Members at a common venue. In view of continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular Nos. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, 17/2020 dated 13" April, 2020, 20/2020 dated 5" May, 2020, 02/2021 dated 13" January, 2021, 21/2021 dated 14" December, 2021 and 02/2022 dated 5th May, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India vide Circulars No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15" January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13" May, 2022 ("SEBI Circulars") have permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means "OAVM") without the physical presence of the Members at a common venue and granted exemption from despatching physical copies of the

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company has completed despatch of Notice of AGM and Annual Report of the Company on 5" September, 2022 through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/RTA /DP. The Notice of the 92" AGM and the Annual Report for the financial year ended 2021-2022 will also be uploaded on the website of the Company i.e. www.mgfltd.com under the head "Annual Reports" (https://www.mgfltd.com/Audited%20Results.html) and the website of the Stock Exchanges, where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com

Notice and AGM and Annual Reports to the Members.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available since the AGM is being held by VC/OAVM. In order to receive the Notice and Annual Reports, Members are requested to register/update their email addresses. with their Depository Participant(s), in case they have not already registered/ updated the same. Members who are holding shares in physical form are requested to get their email addresses registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by sending an email at rta@alankit.com.

# VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE:

The company is providing remote e-voting facility to all its Members through the e-voting platform of CDSL in respect of all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through an e-voting system during the AGM. The detailed procedure of casting the votes through e- voting is also provided in the Notice of the AGM.

Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM but are not entitled to cast their vote again. Members who have not casted their vote through remote evoting and are present in the AGM through VC/OAVM shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

Members whose names appear in the Register of Members or in the register of beneficial owners, maintained by the Depositories as on the "cut-off date" i.e. Tuesday, September 20, 2022 shall only be entitled to avail of the remote e-voting facility or vote as the case may be at the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 20, 2022. The remote e-voting will commence on Sunday, September 25, 2022 at 9.00 a.m. and will end on Tuesday, September 27, 2022 at 5.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on September 27, 2022 and once vote on a resolution has been cast by Member, the Member will not be allowed to change it subsequently.

## BOOK CLOSURE

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Wednesday, September 21, 2022 to Wednesday, September 28, 2022 (both days inclusive).

Queries / grievances, if any, with regard to e-voting, may be addressed through email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or

Date: September 6, 2022

financialen epan.in

call 1800 22 5533. By Order of the Board For THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED (M.K. MADAN) Place: New Delhi VP. CS & COMPLIANCE OFFICER

ACS-2951

LANDMARK PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Ph. No. 911-6176727, 911-6128880

Registered Office: 11th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN: L13100DL1976PLC188942, Phone No. 011- 43621200, Fax No. 011-41501333 E-mail: info@landmarkproperty.in. Website: www.landmarkproperty.in NOTICE

held on Friday, September 30, 2022, at 11.30 A.M. IST through Video Conference ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and circulars issued thereunder, to transact the Ordinary Business and the Special Business as set out in the Notice convening the said Meeting.

NOTICE is hereby given that the 46th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be

n compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for Financial Year ended March 31, 2022 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s).

The Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice. The details relating to e-voting, are as under:

The Businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.

The remote e-voting shall end on September 29, 2022 at 5:00 p.m. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM

The remote e-voting shall commence on September 27 2022 at 9:00 a.m.

is September 23, 2022. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after despatch of Notice of AGM and holding Shares as of the cut-off date, i.e., September 23, 2022 may obtain login ID and password by sending a request at evoting@esdl.co.in.

Members may note that; a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution has been casted by a member, he shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for e-voting shall be made available at the AGM; c) a member who has casted his vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast his vote again; d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail both the facilities of voting, i.e., either through remote e-voting or e-voting at the AGM

The Notice of AGM is available on the Company's website and also on the NSBL's website https://www.evoting.nsdl.com.

In case of queries, members may refer to the frequently asked questions (FAQs) for members and e-voting user manual for the members at the downloads section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no... 1800222990 or contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, or Ms. Soni Singh, Assistant Manager, National Securities Depositories Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013 at the designated email IDs: evoting@nsdi co.in or SaritaM@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos. 022 24994600/022 24994890/ 022 2499 4559 who will also address the grievance connected with the voting by electronic means.

### Closure of Register of Members

lotice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Fransfer Books of the Company shall remain closed from 24.09.2022 to 30.09.2022 (both days inclusive) at the time of 46th Annual General Meeting to be held as per schedule mentioned hereinabove.

By Order of the Board Ankit Bhatia New Delhi September 7, 2022 Company Secretary

## OMANSH ENTERPRISES LIMITED

Office No. 153, 1st Floor, Vardhman Premium Mall, Opposite Kali Mata, Deepali Chowk, Pitampura New Delhi- 110034 CIN: L01100DL1974PLC241646 Email Id: omanshwork@gmail.com

NOTICE

Notice is hereby given that:

The 48th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 28th September, 2022 at 12:00 Noon through Video Conferencing, to transact the business as set out in the Notice of the meeting dated 24th August, 2022.

The Company on Tuesday, 6th September, 2022, completed the dispatch of Notice of 48th AGM along with the Annual Report for the year 2021-22 by electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Compan Depository Participant(s) on Friday, 26th August, 2022 (the "Cut-off Date")

The Notice of Annual General Meeting can be viewed/ downloaded from the CDSL website www.evotingindia.com. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Sunday, 25th September, 2022 to Tuesday, 27th September, 2022 (both days inclusive) for the said Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulations 44 of the Listing Regulation, the Company is pleased to provide e-voting facility by Central Depository Services Limited (CDSL) to its members in respect of the business (es) to be transacted at the Annual General Meeting.

The e-voting facility will be available from Sunday, 25th September, 2022 to Tuesday, 27th September, 2022 (5:00 P.M.) after which e-voting shall not be allowed. The Cut-Off date for determining the eligibility to vote through electronic means or

at the AGM is Wednesday, 21st September, 2022. Any person, who acquires shares of the company and becomes member of company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-Off date, may

obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for Facility for Remote e-voting shall be available at the AGM. Members who have

already cast their vote through Remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM. In case of any queries or issues regarding e-voting, please refer to the

Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members, available at www.evotingindia.com or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager at CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, or at 1800-22-5533 or registered office address of the Company. By the Order of the Board of

For Omansh Enterprises Limited

Place: New Delhi Date: 6th September, 2022

Rakesh Kumar Managing Director DIN: 08913679

#### RIBA TEXTILES LIMITED CIN: L18101DL1989PLC034528

Regd. Office: DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post office , New Delhi-110019 E.Mail: company.affairs@ribatextiles.com, Website: www.ribatextiles.com Tel. No.: 011-26236986

## NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

The Notice is hereby given that the 34" Annual General Meeting (AGM) of Riba Textiles Limited ('The Company') will be held on Friday, September 30, 2022 at 10:00 A.M. through Video Conferencing (VC) / other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and Rules framed there under and the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 19/2021, 21/2021 and 02/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circular(s)) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI

Circular), without the physical presence of the Members at a common venue. The electronic copy of Notice and Annual Report have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Depository Participant(s). The dispatch of Notice of AGM and Annual Report for the year 2021-22 has been completed on September 07" 2022. The Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 and Notice of AGM are also available on the website. of the Company at www.ribatextiles.com and the website of BSE at www.bseindia.com. The requirement of sending physical copies of Annual Report have been dispensed vide MCA Circulars and SEBI circulars as mentioned above.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made there under and Regulation 42 of SEBI (LODR), 2015, the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 24" September, 2022 To Friday, 30" September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR), 2015 and Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules. 2014 (as amended) the Company is providing remote e-voting facility and e-voting during the AGM to the shareholders to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the AGM. The detail instruction for remote e-voting and e-voting are provided in the notice of AGM that is being emailed to the Members. The Company has engaged the services of CDSL for providing e-voting facility to Shareholders.

Further, the Notice of the AGM, containing details regarding user ID & Password and the instructions for e-voting have been already sent to the members. The e-voting platform will open for voting from Tuesday, 27" September, 2022 (10:00 a.m.) (IST) and ends on Thursday, 29" September, 2022 (5:00 p.m.) (IST) Shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the Cut-off date i.e Friday , 23" September, 2022 may cast their vote electronically in respect of business to be transacted at the AGM. E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and hold shares as on Cut-Off date, may obtain their User ID and Password for E-voting by sending request at heldesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/or Beetalrta@gmail.com. Members, who casts their vote by remote e-voting prior to AGM, may also participate in meeting through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means ("OAVM") but they shall not be entitled to cast their Vote again at AGM. Process for Shareholders, whose E-mail Addresses are not registered with Depositories, for obtaining login credentials for E-voting for the Resolution Proposed in the Notice is: For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of

- shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA at Beetalrta@gmail.com or to Company at Company affairs@mbatextiles.com. For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
- For Individual Demat shareholders Please update your email id & mobile no, with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual
- meetings through Depository. Any queries or grievances connected with e-voting may be addressed to Company on email
- id Company affairs@ribatextiles.com. Mr. Vishal Gupta, proprietor of M/s Vishal Gupta & Associates a Practicing Company
- Secretary (Membership No. 39686) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting process at AGM in a fair and transparent manner.

For RIBA TEXTILES LIMITED

Place: Panipat Date: 07th September, 2022

(Asha Garg) Chairperson & Whole-time Director

# FINANCIAL EXPRESS

By Order of the Board of Directors of the Company

For Atma Steels Limited

Harbhajan Singh

**Managing Director** 

Date of Possession

(Constructive/

Physical)

02/09/2022

(Constructive)

Sd/- Authorised Officer

For Hero Housing Finance Limited

NOTICE FOR 50™ ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Fiftieth (50th) Annual General Meeting (AGM) of Atma Steel

imited for the Financial Year 2021 - 22 will be held on Friday, 30th September, 2022 at 10:0

A.M. at the Registered office of the Company situated at C-139, Industrial Area, Bulandshaha:

Road, Ghaziabad-201009 to transact the business as set out in Notice of AGM. The Company's

50th Annual Report along-with Notice dated 3rd September, 2022 convening the AGM, have

already been sent through electronics mode on 07th. September, 2022 to all the Members

who's e-mail id's are registered with the Company in accordance with the circular issued by

Nembers who have not yet registered their e-mail address with the Company can register

their e-mail address and PAN Number for receipt of Notice of AGM and Annual Report for

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the

SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain

closed from 24.09,2022 to 30.09,2022 (both days inclusive) for the purpose of ensuing 50th

AGM. The Notice of 50th AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 will also be

Regd. Office: 09, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057

Phone: 011 49267000, Toll Free Number: 1800 212 8800, Email: customer.care@herohfl.com

Website: www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC30148

Contact Address: Building No. 07, 2nd Floor, Community Center,

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Hero Housing Finance Limited, under

the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.

2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security

Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notices as mentioned below calling upon the

Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice

The borrower, having failed to repay the amount; notice is hereby given to the borrower, in particular

and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described

herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule

The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the

property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Hero Housing Finance

Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect

Description of Secured Assets/Immovable Properties: Flat No-304, 3rd Floor, Anne Shakti

Phase-2. Plot No. 11, 12, 13 & 14, Khasra No. 215 & 217, Gram/Mohalla-Bharwara, Ward-Chirihat,

Tehsil and District Lucknow, Uttar Pradesh-226028, Having Super area Measuring 111.524 Sq.

Mtrs. Bounded By- North-Open Sky; East-Flat No-303; South-Common passage and Plot No-305;

Date of Demand

Notice/Amount as

per Demand Notice

18/05/2022, Rs 29.81.837/-

as on date 16/05/2022

Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi- 110057

HERO HOUSING FINANCE LIMITED

Vinistry of Corporate Affairs and by Securities Exchange Board of India.



available on Company's website at www.atmasteelsltd.com

nining the AGM

Place: Ghaziabad

Date: 07.09.2022

etc. from date mentioned below.

Loan

No.

Account

HHFLUCHOU

19000004359

Wast-Open Sky;

Place: Lucknow

Date: 08-09-2022

of time available, to redeem the secured assets

Name of Obligor(s)/

Legal Heir(s)/Legal

Representative(s)

Kumar Shrivastava

Kavita Srivastav & Navin

Contracts

Registered Office: 4 Scindia House, 1st floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001, Telephone: +91-11-43656502

NOTICE FOR SHAREHOLDERS FOR 84th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 84th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022 at 11.30 a.m. through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, which is being circulated for convening the AGM.

Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No.20/2020 dated 5th May, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022 have permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

- Kindly note that Notice of AGM and Annual Report for FY 2021-22 shall be sent via email to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories.
- facility only. The instructions for joining the AGM and e-voting are provided in the notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.
- In case Member(s) have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, please follow the below instructions to register e-mail address for obtaining Annual Report and login details:
- (i) Members holding shares in dematerialized form are requested to approach their respective Depository Participants for updating the Email address and Mobile No.
- Transfer Agent Accurate Securities & Registry Private Limited/ the Company by furnishing following information:

S.No.	Particulars	Details
1.	Name	
ii.	Falio No.	
iii.	Email ID	

The details shall be sent to Mr. Ankur Shah, Accurate Securities & Registry Pvt. Ltd. - RTA at email ID: investor@accurate securities.com or Mr. K. S. Jaira, Sr Accounts Executive at email ID: mbil@me.com

The 84th AGM Notice will be sent to the shareholders holding shares as on cut off for the dispatch in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.

K. S. Jaira Sr Accounts Executive

## JT L INFRA LIMITED CIN: L27106CH1991PLC011536

SCO: 18-19, Sector 28-C, Chandigarh JTL Trice Umited Phone: +91 172 4668000, Email: finance@jtlinfra.com Website: www.jtlinfra.com

NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that 31st. Annual General Meeting (AGM) of the Company will be

held on Friday, September 30, 2022 at 9.00 A.M.(IST), through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means(OAVM) to transact the Ordinary and Special business as set out in the Notice dated September 05, 2022 convening the AGM Mode in compliand with General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and other circulars issued from time to time (collectively referred to as "the Circulars") and in compliance wit the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), to transact the Ordinary and Special Business as set out in the notice of the AGM.

In Compliance with the relevant MCA circulars, the Notice of AGM along with the Annua Report for the financial year 2021-22 will be sent to Members in electronic form to the E mails registered with their Depository Participants. For members whose Email IDs are no registered we request shareholders to update their email ids with the depositories/RTA as soon as possible. The Notice and Annual Report may also be accessed on the website of the company at www.jtlinfra.com and website of Central Depository Services (India Limited (CDSL) www.evotingindia.com

The Cut-off Date for determining the eligibility of members for the purpose of remote e voting, for participation in the AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the AGM is Friday September 23, 2022. Any person who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on the Cut-off Date may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The e-voting period will commence on Tuesday, September 27, 2022 (9:00 AM IST) and ends or Thursday, September 29, 2022 (5:00 PM IST). Thereafter the e-voting module will be

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 24, 2022 (9:00 AM IST) and ends on Friday, September 30, 2022 (5:00 PM IST) (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members holding shares in physical form or who have not registered their email addresse with the Company can cast their vote through remote e-voting or through e-voting during the meeting in the manner as set out in the notice calling the AGM. Any person becoming the member of the Company after the dispatch of Notice of AGM but on or before the cut-of date can also cast his/her vote by logging on www.evotingindia.com using their login credentials. If a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote. Members holding the shares in physical mode and who have not updated their email addresses are requested to update it by writing to the Company at finance@itlinfra.com or Company's RTA at beetalrta@gmail.com along with the copy of signed request mentioning folio number, self-attested copy of the PAN card and any one document i.e. Driving License, Election Identity Card, Passport or Aadhaar Card Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update the same with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

For any clarifications or assistance members may contact company's RTA, BEETAL Financial & Computer Services Pvt. Ltd at its e-mail ID: beetalrta@gmail.com or write to Company at finance@itlinfra.com

Name of Borrower (s) /

No. | Guarantor(s) / Legal Heir(s) and Legal

For JT L Infra Limited Mohinder Singh Company Secretary



CIN: L74899DL1987PLC027057 Regd. Off: 401-A, PP Towers, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 E-mail: stancap.delhi@gmail.com Website: www.stancap.co.in, Phone: 011-47461199 NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING,

BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Standard Capital Markets Limited ("the Company") will be held on Friday, September 30 2022 at 04.00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) general circular dated April 8, 2020 April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 and SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 (collective) referred to as "relevant Circulars"), to transact the business as set out in the Notice of the

In compliance with the relevant circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22, has been sent on September 07, 2022, through electronic mode only, to those members whose e-mail address is registered with the Company/Depository Participant(s) and whose name appeared on the Register of Members or the register of beneficial owners maintained by the depositories. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.stancap.co.in and hyperlink https://www.stancap.co.in/reportand-disclosures/annual-report/2021-2022.pdf and on the website of Stock Exchange i.e BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of AGM will also be available on CDSL e-voting website at www.evotingindia.com.

rules thereunder and applicable provisions of SEBI/Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 24, 2022 to September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM. In term of Section 108 of the Companies Act, 2013 and rule 20 of the Companies

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevan

(Management and Administration) Rules 2014 as amended, and Regulation 44 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is providing electronic voting facility for transacting the business as set out in the Notice of the AGM, through Central Depository Services (India) Limited (CDSL), which will commence on September 27, 2022 at 09.00 A.M. and ends on September 29, 2022 at 05.00 P.M. and remote e-voting shall not be allowed thereafter. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2022, may refer the instruction regarding login ID and password as provided in the notice to AGM and may contact the Company of Company's RTA at info@skylinerta.com for any assistance in this regard.

The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e September 23, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting. The manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM by members, has been provided in detail in the Notice of the AGM.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSU e-Voting system, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact a 022- 23058738 and 022-23058542/43. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL), Centra Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mil Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 22 55 33.

For Standard Capital Markets Limited

Date: 07.09.2022 Place: New Delhi Vineeta Gautam

Company Secretary & Compliance Officer

Description of Immovable

Property (ies) /



Place: NEW DELHI

Date: 07.09.2022

Place: Chandigarh

Date: September 06, 2022

# HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.

Nothern Regn. Office: The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marge, New Delhi - 67 Tel.: 011-41115111, CIN L70100MH1977PLC019916, Website: www.hdfc.com

Date of

Demand Possession

POSSESSION NOTICE

Whereas the Authorised Officer/s of Housing Development Finance Corporation Limited, under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrower(s) / Guarantor(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of the said Notice/s, incidental expenses, costs, charges etc till the date of payment and / or realisation.

Date of

	Representative(s) / Loan Account Nos.		Notice		Secured Asset (s)
1.	MR VIVEK KUMAR JAIN	Rs. 52,25,192/- (as on 31-MAY- 2021)	18-JUNE- 2021	06-SEP-2022 (PHYSICAL)	FLAT-B05/0702, FLOOR-7TH, TOWER B5, M3M WOODSHIRE, SECTOR 107, DWARKA EXPRESSWAY, GURGAON- 122001 AND PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH
2.	MR MAHESH KUMAR & MRS. SAROJ BALA	Rs. 12,30,852/- (as on 31-Jan-2022)	22-FEB- 2022	06-SEP-2022 (PHYSICAL)	FLAT-7, FLOOR-FIRST, PKT-4, BLOCK-D1, LIG, DDA ROHINI, SECTOR-34, DELHI- 110085 ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH & CONSTRUCTION THEREON PRESENT AND FUTURE

However, since the borrowers / Guarantor(s) / mentioned hereinabove have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the

Outstanding Dues

borrowers / Guarantor(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer of HDFC have taken Physical possession of the immovable properties / secured assets described herein above as mentioned in serial no. 1 & 2 in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above

The borrower(s) / Guarantor(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and the public in general are

hereby cautioned not to deal with the aforesaid Immovable Properties / Secured Assets and any dealings with the said Immovable Property (ies) /

Secured Asset(s) will be subject to the mortgage of Housing Development Finance Corporation Ltd. Borrower(s) / Guarantor(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is/are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the

Legal Representative(s) is / are requested to collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s. Copies of the Panchnama drawn and inventory made are available with the undersigned, and the said Borrower(s) / Guarantor(s) / Legal Heir(s) /

Authorised Officer

Regd Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate Mumbai-400 020 New Delhi

For Housing Development Finance Corporation Ltd.

METAL BOX INDIA LIMITED CIN: U14106DL1933PLC102722

Fax: +91-11-43656501, E-mail: del@metalboxindia.com

The Government of India, Ministry of Corporate Affairs, vide its

- Members can attend and participate in the AGM through the VC/QAVM

- (ii) Members holding shares in physical form are requested to register/ update their Email IDs with the Registrar and Share

For Metal Box India Ltd

Place: New Delhi Date : September 08, 2022 STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED

गनमायवा इंडस्टीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट ऋगधारक के निगमन की तिथि 3.6.2009

ऋणधारक निगमित/पंजीकृत हैं। तॅपेरिट पहचान संख्या/कॉपोरेट ऋणधारका U3410DL2009FTC234902

का सीमित दायित्व पहचान संख्या हॉर्पेरेट ऋगधारक के पंजीकत कार्यालय ए-192, सरिता विहार, नई दिल्ली, डीएल 110078 आईए तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता

आरंभ होने की तिथि ठेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या बी-269, एलजी, छत्तरपुर एन्क्लेच, फेज-2, नई दिल्ली-110074

इ. दावे जमा करने की अंतिम तिथि

तिषि: 8,9,2022

स्थानः नई दिल्ली

vlshin@gmail.com एम. नं. 8800794355 IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834

परिसमापन शुरू किया है। एलदहारा शिनमायबा इंडस्टीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकघारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 4.10.2022 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी

एसददारा सचित किया जाता है शिनमायबा इंडस्टीज इंडिया प्राईबेट लिमिटेड ने 05.09.2022 की स्वैच्छिक

क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्टॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दाये का गलत या धामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

राजीय बजाज

परिसमापक IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834

जिन्दल पॉली इन्बेस्टमेन्ट एडं फाइनांस लिमिटेड [सीआईएन नं. : L65923UP2012PLC051433]

पंजीकृत कार्यालय : 19 किमी, हापड-बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलायटी, जिला बलन्दशहर-203408

कार्पो. कार्यालय : प्लॉट नं. 12, सेक्टर-बी-1, लोकल प्रॉपिंग कॉम्पलेक्स, वसन्त कृज, नई दिल्ली-110 070 दूरभाष : 011-40322100, ई-मेल : cs\_jpifcl@jindalgroup.com; वेबसाइट : www.jpifcl.com

10वीं वार्षिक आम बैठक तथा बुक क्लोजर की सूचना एतद्वारा सुचना दी जाती है कि एजीएम की सुचना में उल्लिखित निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन हेतु जिन्दल

पॉली इन्वेस्टमेन्ट एडं फाइनांस कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 10वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) केवल इं-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वीडियो कांफ्रेसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजअल साधनों ('ओएवीएम') हारा गुरुवार, 29 सितम्बर, 2022 को 12.30 बने अप. आयोजित की जायेगी। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रायधानों तथा कॉपोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत साधारण सक्युंलर सं 02/2022 तिथि 5 मई, 2022, तथा 19/2021 तिथि 8 दिस., 2021 तथा अन्य सक्युंलर्स तथा इस संदर्भ में पूर्व वर्ष के सर्क्युलस् के साथ पडित सर्क्युलस् नं, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 तिथि 13 मई, 2022 सेबी हारा जारी (सामृहिक रूप से "सक्युंलर्स" वर्णित ) के अनुपालन में एनीएम केचल चीसी/ओएबीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी। प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी। एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना मे उपलब्ध कराये गये हैं।

चित्र वर्ष 2021-22 हेत वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सचना केवल इलेक्टॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी या सीडीएस/एनएसडीएल (''डिपॉजिटरी'') के पार पंजीकृत हैं और साथ ही वे कम्पनी की वेबसाइट www.jpifel.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com तथा www.bscindia.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों ने अपने इं-मेल पते पंजीकत नहीं कराये हैं ये इं-मेल पते. मोयाइल नम्बर, स्वप्रमाणित पैन

की प्रति तथा शेयर प्रमाणपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए निवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति के साथ ई-मेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल करके कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेन्ट केफिन टेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड (केफिन) के साथ अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नम्बर पंजीकृत करा लें। कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम के संचालन तथा ई-बोटिंग सुविचा हेत् अधिकृत एजेंसी के रूप

केफिन की सेवार्ष ग्रहण की हैं। रिमोट ई-जोटिंग आवधि सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 9.00 वर्ज प्रात प्रारम्भ होगी और बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 5.00 क्ले साथं समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान पार शेयरधारक जो भौतिक या अभौतिक रूप से शेयर धारण करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात रिमोट इं-पोटिंग मॉडयल केफिन झरा निष्क्रिय कर दिया जायेगा अर्थात 28 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप, के पश्चात मतदान की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के लिए एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जायेगी जो एजीएम में शामिल होंगे और जिन्होंने अपना मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-जोटिंग हारा अपना मतदान कर लिखा है वे एजीएम ह थीसी/ओएबीसी के माध्यम से उपस्थित/भाग ले सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान के पात्र नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित

करने की कट-ऑफ तिथि गुरुवार, 22 खितम्बर, 2022 है। कोई ज्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और सुचन भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह अपना मतदान करने हेतु फोलियो नं./ डीपीआईडी तथा क्लाइन्ट आईडी का उल्लेख करते हुए evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी तथा पासवडं प्राप्त कर सकते हैं अथव 1800-3454-001 पर अनुरोध कर सकते हैं अधावा टेली. 022-49186000 पर सम्पर्क कर सकते हैं। यदि सदस्य ई-बोटिंग के लिए केफिन के साथ पंजीकत हैं तो मतदान करने के लिए वे अपने वर्तमान यजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-वॉटिंग द्वारा मतदान करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। प्रयोज्य नियमों के रक्षध पटित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड

( सुचीबद्धता दाफिल्य एवं प्रकटन अपेक्षाएँ ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में एतझर सुचन दी जाती है कि एजीएम हेतु सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुरितका शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 से गुरुवार, 29 सितम्बर, 2022, दोनों तिथियाँ शामिल, बन्द रहेगी।

ई-वोटिंग अथवा चीसी/ओएवीएम हारा भागीदारी से संबंधित तकनीकी सहायता के लिए सदस्य टॉल फ्री मं 1800-345-4001 पर केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से सम्पर्क करें अथवा einward.ris@kfin tech.com तथा evoting@kfintech.com पर ईमेल करें। जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के लिए

पनस्याम दास सिंधल स्थान : नई दिल्ली तिथि : 07.09.2022 (प्रबंध निदेशक)

#### अजन्ता सोया लिमिटेड सीआईएन : L15494RJ1992PLC016617

**कार्यालय**ः एसपी-916, फेज-III, इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला अलवर, भियाडी-301 019, राजस्थान दुरभाष नं. : 911-6176727, 911-6128880 कॉर्पोरेट कार्यालय :12वीं मंजिल, विगजोस टॉवर, ए-८, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट

> सेंटर, दिल्ली-110 034 दरभाष नं. : 91-11-42515151, फैक्स : 91-11-42515100 वेषसाइट :www.ajantasoya.com, ई-मेल : cs@ajantasoya.com

# 31वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा

ई-वोटिंग की जानकारी की सचना एतडारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानी तथा उसके तहत नियमी और कॉर्पोरेट कार्य मन्त्रालय द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 तथा 5 मई, 2022 ('एमसीए परिपत्र') के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिधय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनिधम 2015 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड हारा जारी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 तथा 13 मई, 2022 ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना कम्पनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) चीडियो कांफ्रेंसिंग (चीसी)/अन्य ऑडियो विज्ञाल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 12.30 बजे अप. (भा.मा.स.) आयोजित को जाएगी। सदस्य केवल वीसी/औएवीएम के माध्यम से ही एनीएम में उपस्थित हो सकेंगे। वीसी/औएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की

एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, सदस्यों को 31वीं एजीएम के नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 बुधवार, 7 सितंबर, 2022 को उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ पंजीकत हैं।

31वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कम्पनी की वेबसाइट www.ajantasoya.com रावा स्टॉक एक्सचेंज की वेंबसाइट जहाँ कम्पनी के शेवर सुचीबद्ध हैं अर्थात www.bscindia.com और और नेशनल सिक्योरिटीन डिपॉनिटरी लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। एनीएम को सूचना एनएसडीएल को वेबसाइट www.cvoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश : कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 20 के साथ पहित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुसार, कंपनी एजीएम में व्यवसाय के लेन-देन के लिए अपने शेयरधारकों को इं-वोटिंग और एजीएम के दौरान इं-वोटिंग की सविधा सहयें प्रदान कर रही है, और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेजनल सिक्योरिटीज हिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के राजस्टर डिपॉजिटरी द्वारा प्रवंधित लाभार्थी स्वामियों के रिकस्टर में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई-चोटिंग, वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से 31वीं एजीएम भाग लेने तथा 31यों एजीएम के दौरान ई-वोटिंग को सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

रिमोट ई-बोटिंग मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 की सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल हारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-बोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे सदस्य, जो बीसी/ओएबीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित डींमे और जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं हाला था. एजीएम के दौरान ई-चोटिंग शिल्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे.

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के निर्देश 31वीं एजीएम की सचनामें प्रदान किये गये हैं। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है, वे बीसी/ओएवीएम माध्यम से 31वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे अपना ई-वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

एक बार किसी संकल्प पर सदस्य हारा वीट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य की बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के उदेश्य के लिए कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 23 सिलंबर, 2022 निर्धारित की गई है। वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ तिथि तक कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के चुकता मृल्य

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और ईमेल द्वारा एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 तक शेयर धारण करता है, evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-बोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह बोट डालने के लिए अपने मौजूदा युजर आईंडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है, तो वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है या टोल फ्री नंबर: 1800-1020-990 और 1800-22-44-30 पर एनएसडीएल

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के हाउनलोह अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा remote e-Voting user manual देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-1020-990 और 1800-22-44-30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या

सुओ पल्लची म्हात्रे, प्रबंधक, नेजनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, टेड चर्ल्ड - ए विंग, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400013 से संपर्क करें। । जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेचर हैं या किन्होंने कंपनी/आरटीए के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकत नहीं को है, वे अपना ई-मेल आईडी पंजीकत करके रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग

के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। एजीएम के दौरान डीमैटरियलाइच्ड और भौतिक मोड में जेवर रखने वाले सदस्यों के लिए और उन जेवरधारकों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया और रीति एजीएम

मैसर्स आर एंड डी कंपनी सेक्रेटरीज, दिल्ली के श्री देवव्रत देख नाथ (सदस्यता संख्या एफसीएस 7775), कंपनी सचिव, पूर्णकालिक कार्यरत को ई-चोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियक्त किया गया है।

वृक वस्तोजरः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के नियम 42 के अनुसार, सदस्यों का रॉवस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर युक्त शनिवार, 30 सिरांबर, 2022 को दोपहर 12:00 वजे (भा.मा.स.) को होने वाली 31वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शनिवार, 24 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

कृते अजना सोबा लिमिटेड

स्रशील गोबल स्थान : नई दिल्ली (प्रबन्ध निदेशक) तिथि : 07 सितम्बर, 2022 DIN: 00125275

## इटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1993PLC053034 पंजीकृत कार्यालय : स्टेट्समैन हाउस 148, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001 दूरमाक 011-42284301, ईमेलः info.isl@1993@gmail.com, वेबसाइट: www.internationalsecuritiesltd.com

एलहवारा सूचना दी जाली है कि कंपनी के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम वैटक (एजीएम), गुरुवार, 29 सितंदर, 2022 को अपराह 2.00 बजे उटेटसमैन ६४८, बाराखंमा रोड, नई दिल्ली—110001 में उक्त एजीएम के नोटिस में उल्लिखित कार्यबाही का निष्पादन। करने के लिए आयोजित की जाएनी, जिसे अभाने, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट

के राध्य 8 सितंबर, 2022 को शेयरबारकों को अनुमत मोड में मेजा गया है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर और ट्रांसफर युक ,शुक्रवार 23 रिलंबर 2022 से गुरुवार 29 रिलंबर 2022 (बीनों बिन सहित ) के लिए 29वीं वार्षिक आम बैठक के उदेश्य

कंपनी (प्रवंधन और प्रशासन) नियम, 2014 क्या संशोधित के नियम 20 के साथ पाउँत कंपनी अधिनियम, 2013 की धार 108 और रोबी (सुबीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन के अनुसार संशोधित कंपनी अपने संबंदयों को 29वीं एजीएम की संबंगा में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एनएसडीएल वास प्रवान की गई ई-मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमां से वोटिंग द्वारा कार्यवाही का निष्पादन

रभी शेयरधारको . चाहे ये भीतिक रूप में हो चा डीमैंट रूप में के लिए रिमोट ई-वोटिंग की स्विशा सोमवार 21 रितंबर, 2022 को पूर्वांड 0800 बजे मारम्म होगी और नुधवार, 25 शितंबर 2022 को साम 5.00 बजे समाप्त डोगी । मकदान के लिए ई-कोटिंग मॉडवृत एनएसडीएल हारा प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त विधि और समय के बाद रिमोद इं-वोटिंग की अनमति नहीं दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मतदान करने की पात्रता निर्वारित करने की अंतिम तिथि गुरुवार, 22 रिलंबर 2022 है कोई व्यक्ति, जो शेयरों का अधिग्रङ्ग करता है एवं नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरधारक बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर एखता है, यह जनने फोलियो नंतर/हींगी आईही और क्लाइट आईही नंतर का तस्सेख करके evoting@nsdl.co.in/sm@masserv.com पर ई-मेल मेजकर लॉगिन-आईटी और पासवह मान करके रिमोट ई-वोटिंग कर सकता है। हालांकि यदि ऐसे श्रेयरधारक जो पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मौजुदा कुजर आईडी और पासवर्त का उपयोग रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

एजीएम में बैलेट येवर के माध्यम से मतदान की सुविधा भी सपलबा कराई जाएगी। हैवक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-बोटिंग हास अपना वांट नहीं डाला है बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे रिमोट 🗲 बोटिंग के माध्यम से बोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सदस्य बैठक में मान ह सकता है, लेकिन मैठक में दोबारा योट देने की अनुमति नहीं होगी।

29वीं एजीएम की सूचना कंपनी की केयसाइट www.internationalsecuritiesItd.com पर उपलब्ध है। एक व्यक्तिः जिसका नाम 22 सितंबर 2022 को सक्स्यों के रजिस्टर में या डिमॉजिटरी हास बनाए गए लामकारी मालिकों के विजरटर में दर्ज है, उसे बोट देने का डकदार डोगा।

यदि आपके पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न च समस्या है. तो कृषण www.evoting.nsdl.com पर सहववत अनुमाग के अंतर्गत उपलब्ध अवसर पूछे जाने वाले प्रश्न और ई-वीटिंग मैनुजल देखें या ईमेल evoting@nsdl.co.in टील फ्री नंबर 1800 1020 990 / 1800 224 430 से सहायता तें अथवा श्री कृष्ण कृषार, निवेशक शिकायत निवारण अधिकारी से info.is11993@gmail.com/011-42284301 पर संपर्क करें। बोर्ड के आदेशानुसार

इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड त्तजीव कुगार गुप्ता (पूर्णकालिक निदेशक) बीआईएन -00039396

देनांकः ७ सितंबर, 2022

स्थान : नई दिल्ली

## जेटीएल इन्फ्रा लिमिटेड

CIN: L27106CH1991PLC011536 एससीओ : 18-19, सैक्टर 28-सी, चंडीगढ़ फोन : +911724668000, ईमेलः finance@jtlinfra.com वेबसाइटः www.jtlinfra.com

#### कथना का 31वा वाधिक आम सभा तथ ई-वोटिंग जानकारी के लिये सुचना

एतदहारा सचित किया जाता है कि कॉपीरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी साधारण सक्येलर नं. 02/2022 तिथि 5 मई, 2022 तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") हारा जारी सर्क्युलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 तिथि 13 मई, 2022 के अनुपालन में तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 ("सेबी विनियमन") के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम पद्धति में आमंत्रित सुचना तिथि 5 सितम्बर,2022 में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये कम्पनी की 31वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे पुर्वा. ( आईएसटी ) में विडियो कान्फ्रेंसिंग ( वीसी )/अन्य आहियो विज्ञअल माध्यमों ( ओएवीएम ) हारा आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित

संबंधित एमसीए सक्वंलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सुचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत ईमेल पर सदस्यों को भेजी जाएगी। ऐसे सदस्यों जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, हम ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि यथाशीघ्र डिपॉजिटरीज/आरटीए के पास अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करा लें। सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.jtlinfra.com तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाईट www.evotingindia.com पर देखी जा सकती है।

रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम संविधा द्वारा एजीएम में भागीदारी तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 है। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं ये helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 (9.00 बजे पूर्वा, आईएसटी) में शुरू होगी तथा गुरुवार 29 सितम्बर, 2022 (5.00 बजे अप. आईएसटी) में बंद होगी। उसके बाद ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 (9.00 बने पूर्वा, आईएसटी) से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 (5.00 बजे अप.) (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य जिन्होंने कम्पनी में अपनी ईमेल पता दर्ज नहीं करायें हैं, वे एजीएम आमंत्रण सचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया में रिमोट ई-बोटिंग अथवा सभा के दौरान ई-बोटिंग हारा अपना मतदान कर सकते हैं, यदि कोई सदस्य एजीएम सूचना के प्रेषण के बाद किन्तु कट-ऑफ तिथि से पूर्व कम्पनी का सदस्य बने हैं, वे भी अपने लॉगिन क्रेडेन्शियल्स का उपयोग करते हुए www.evotingindia.com पर लॉगिन हारा अपना मतदान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सीडीएसएल के पास पहले से ही पंजीकृत हैं, वे मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल पते अद्यतन नहीं कराये हों, उनसे आग्रह है कि अपने फोलियो नम्बर का उल्लेख करते हुए, पैन कार्ड तथा किसी भी एक दस्तावेज जैसे डाईविंग लाइसैन्स, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड की सत्वापित प्रति सहित लिखित हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र beetalrta@gmail.com पर कम्पनी के आरटीए अथवा finance@jtlinfra.com पर कम्पनी को भेजकर उसे अद्यतन करा लें। डिमैटरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराये हैं, से आग्रह है| कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स जिनके पास उनकी डीमैट खाता प्रबंधित है, के पास उसे पंजीकृत/

किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या सहायता के लिए सदस्य उसके ईमेल आईडी beetalrta@gmail.com पर कम्पनी के आरटीए, बीटल फाइनॉसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्रा.

लि. से सम्पर्क करें अथवा finance@jtlinfra.com पर कम्पनी को लिखें। जेटीएल इन्फ्रा लिमिटेड के लिए

स्थान : चंडीगढ मोहिन्दर सिंह तिथि : 6 सितम्बर, 2022 कम्पनी सचिव



### स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1987PLC027057 पंजीकृत कार्यालयः 401-ए, पीपी टावर्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

ई—मेल stancap.delhi@gmail.com, वेबसाइटः www.stancap.co.in, फोन: 011−47481199 35वीं वार्षिक साधारण सभा, बही समापन तथा ई-वोटिंग जानकारी की सचना एतदवारा सूचना दी जाती है कि स्टैंडर्ड कैंपिटल मार्केटस लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 35वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम'') शुक्रवार 30 सितंबर 2022 को अपराहन 04.00 बजे वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य-श्रव्य संसाधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह आयोजन, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल 2020. 13 अप्रैल 2020. 5 मई 2020 और 13 जनवरी 2021 तथा सेबी के परिपन्नों दिनांकित 12 मई 2020 एवं 15 जनवरी 2021 तथा सामान्य परिपन्न सं. 02/2022 दिनांकित 5 मई 2022 (सामूहिक रूप में "प्रासंगिक परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 "अधिनियम") एवं उसके अंतर्गत विरवित नियमावली तथा सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन करने के लिये किया जाएगा। सुसंगत परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ एजीएम की सुचना 07 सितंबर

2022 को केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिनका ई-मेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(याँ) के साथ पंजीकृत है तथा जिनका नाम सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में प्रविष्ट हो चुका है। उपरोक्त प्रलेख कंपनी की वेबसाइट www.stancap.co.in और हाइपरलिंक https://www.stancap.co.in/report-and-disclosures/annual-report/2021-2022.pdf तथा स्टॉक एक्सचॅज अर्थात् बीएसई लिमिटेंड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। एजीएम की सूचना सीडीएसएल ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विरिधत सुसंगत नियमावली के साथ पितत उसकी धारा 91 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों की पीजिका तथा कंपनी की अंशांतरण बहियां एजीएम के प्रयोजनार्थ 24 सिलंबर 2022 से लेकर के 30 सिलंबर 2022 (दोनों तिथियां सम्मिलित) तक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावलें 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमावली 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन करने के लिये, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है, जिसका प्रारंभ 27 सितंबर 2022 को प्रातः 09.00 बजे तथा समापन 29 सिलंबर 2022 को सांय 05.00 बजे होगा और इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और खूचना प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर 2022 के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह एजीएम की सूचना में उपलब्धानुसार लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के संबंध में प्रस्तुत अनुदेश देख सकता है और इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के आरटीए से info@skylinerta.com पर संपर्क कर कर सकता है। ई-बोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित होनेवाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट डालने में सक्षम हो सकेंगे। कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी साधारण सभा में भाग ले सकता है परन्त उसे सभा में पनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितंबर 2022 के अनुसार सदस्यों की पंजिका में अथवा हिपोंजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लागार्थी स्वामियों की पंजिका में अभिलेखित है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ साधारण सभा में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रविधि का सविस्तार वर्णन एजीएम की सूचना

यदि आपके पास एजीएम में उपस्थित होने एवं सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर इस संबंध में एक ईमेल लिख सकते हैं या 022-23058738 एवं 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी. वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराधन प्रयूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपालंडस, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई -400013 को संबोधित कर उनके संज्ञान हेत् अग्रसारित कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेजें अधवा 1800 22 55 33 पर कॉल करें।

दिनांकः 07.09.2022

स्थानः नई दिल्ली

क्ते स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड हस्ता\_/-

विनीता गौतम कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

जनसता

आत्मा स्टील्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यातय-सी-139, ओद्योगिक क्षेत्र, बुतंदशहर रोड, गावियाबाद-201009, (पू.पी.) दूरभाष सं. 9310506965, CIN: C27106UP1970PLC003353,

ई-मेल:-atmasteelsltd@rediffmail.com, वेबसाइट:-http://www.atmasteelsltd.com एतदहारा युचित किया जाता है कि आत्मा स्टील्प लिमिटेड की वित्त वर्ष 2021-22 के लिये पचासवीं (50वीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 10 को पूर्वा, में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालयः सी-139, इंडरिस्टयल परिया, बलन्दप्रहर रोड, यातियाचाद-201009 में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सचना में वर्षित व्यवसावों को निष्पदित किया जायेगा। एजीएम आमंत्रण सचना के साथ कम्पनी की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट 7 सितम्बर, 2022 को इलेक्टॉनिक पद्धति में ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी कॉपॉरेंट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड हारा जारी सवर्षलसं के अनुसार कम्पनी में पंजीकृत है।

जिन सदस्यों ने कम्मनी के पास अभी तक अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे एजीएम की सुचना में शामिल होने के लिये एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये अपना इंगेल पता तथा पैन नम्बर पंजीकृत करा कम्पनी अधिनिवम, 2013 की धारा 91 तथा सेवी (एलओडीआर) विनिवमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में

सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें 24.9.2022 से 30.9.2022 (दोनों दिवस सहित) तक आगामी 50वीं एजीएम के उद्रेश्य से बंद रहेंने। 50वीं एतीएम की सचना तथा चित वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.atmasteelsltd.com पर भी उपलब्ध होगा।

कम्पनी के निदेशक मंडल के आदेश र आत्या स्टील्स विमिटेड के लिये

तिथि: 7.9.2022 (हरभजन सिंह (प्रवंध निदेशक स्थानः गाजियाबाद

सीआईएर : L26942DL1991PLC043776 पंजीकृत कार्यालय : ७०३, अरुणायल बिल्डिंग, १७, बाराखन्ना रेड, क्रनाट फोस, नई दिलगी-110001 दुरभाष : 011-43571044; फैक्स : 011-43571047, ई-पेल : recoments/imited@gmail.com, पेपनाइट : www.recoments.com

### वाधिक आम बढक, बुक बलाबर एवं रिमोट ई-वोटिंग की सचना

एतहारा सुचना दी जाती है कि एजीएम की सुचना दिनांक 25 अप्रैल, 2022 में निधारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए कम्पनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 9.30 बजे पूर्वा. 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्मा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 पर आयोजित की जायेगी। एजीएम की सचना तथा वित्त वर्ष 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों के पास अनुमत्य माध्यम से 07 सितम्बर, 2022 को भेजी जा चुकी है।

सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं उसके तहत निर्मित प्रयोज्य नियमों के अनुसरण में एतद्वारा सुचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण परितकाएं एजीएम के उद्देश्य से शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 तक बंद रहेंगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) बे प्लेटफॉर्म पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से दिनांक 25 अगस्त, 2022 की एजीएम सुचना मे उल्लिखित के अनुसार सभी प्रकार्य मदों पर लेन-देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराईं है। रिमोट ई-वोटिंग 27 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे प्रात: से प्रारम्भ होगी और 29 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. को समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के पश्चात रिमोट-ई वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों सहित वार्षिक आम बैठक की सुचना कम्पनी की वेबसाइट www.rcccements.com तथा एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की गयी है। जुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 तक शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य एनएसडीएल के रिमोट ई-चोटिंग प्लेटफॉर्म www.evoting.nsdl.com पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा आम बैठक के दौरान बैलट प्रपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के पश्चात भी सदस्य आम बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु वे बैठक के दौरान मतदान के पात्र नहीं होंगे। यदि मतदान कर दिया जाता है तो इसे अवैध माना जायेगा और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम सें मतदान पर विचार किया जायेगा। सदस्य एजीएम की सुचना में मुद्रित के अनुसार ई-वोटिंग से संबंधित निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें। रिमोट ई-चोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या मुददे के लिए वे हेल्प खण्ड के तहत www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल करें। शेयरधारक अपने ई-मेल आईडी के पंजीकरण/अपडेशन तथा अन्य मामलों के लिए रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स मास सर्विसेज लिमिटेड, सम्पर्क नं. 011-26387281-83 पर या अपने सम्बद्ध डिपॉजिटरी से सम्पर्क कर सकते हैं।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सेबी परिपन्न सं. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 दिनांक 8 जुन, 2018 के अनुसरण में अपने शेयर डीमैटीरियलाइज्ड करा लें। पुनः सदस्यों से निवेदन हैं कि वे आस्टीए/कम्पनी के साथ अपने ई-मेल आईडी, पैन कार्ड तथा बैंक विवरण पंजीकृत करा लें। इस संबंध में आवश्यक सचना कम्पनी द्वारा पहले ही अलग से सदस्यों को भेज दी गयी है।

कोविड महामारी के दौरान एजीएम का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार हारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों/परामर्शियों/एसओपी के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों एवं अन्य सरक्षा प्रोटोकॉल सहित फेस मास्क, हैंड सैनिटाइनेशन आदि का कठोरता से अनुपालन में सम्पन्न होगा।

> कृते आरसीसी सीमेंट्स लिमिटेड शिम्पी गोयल कम्पनी सचिव

## द मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लिमिटेड जीकत कार्यालयः एमजीएफ हाउस. ४/17-बी. आसफ अली गेह, नई दिल्ली-110002

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 08 सितम्बर, 2022

फोन नंबर: 23272216-18, 23276872 फैक्स नंबर: 23274606 ई-मेलः mgfltd@hotmail.com चेवसाहरः http://www.mgfltd.com सीआईएन नंबर: L74899DL1930PLC000208 | जीएसटी नंबर: 07AAACT2356D2ZN

## वीडिबो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडिबो विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली २२वी वार्षिक आम बैटक ('एजीएम') के बारे में जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि द मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यों की 92वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से किसी आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को सुबह 11.30 बजे पंजीकृत कार्यालय यानी एमजीएफ हाउस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली- 110002 में आयोजित की जायेगी। निरंतर कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपन्न' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और सेबी/एचओ/सीएफडी /सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई. 2022 (''सेबी परिपत्र'') ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्ञअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमति दी हैं और सदस्यों को नोटिस और एजीएम तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने से छुट प्रदान की है।

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने एजीएम की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 5 सितंबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजा है जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत हैं। 92वीं एजीएम की सूचना और 2021-2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट भी कंपनी की वेबसाइट यानी www.mgfltd.com 里 "Annual Reports" (https://www.mgfltd.com/ aAudited%20Results.html) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहां कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया www.bseindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के लिए गिना जाएगा। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उन्होंने पहले से पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, तो वे अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट कर लें। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे rta@alankit.com पर ईमेल भेजकर अपने ईमेल पते रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत कराएं। इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान:

कंपनी एजीएम की सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों के संबंध में सीडीएसएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया भी एजीएम के नोटिस में दी गई है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम

के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दुबारा वोट डालने के हकदार नहीं हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के जिन सदस्यों के नाम 'कट-ऑफ तिथि' अर्थात मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 तक डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं. केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या या एजीएम में वोटिंग, जैसा भी मामला हो, सुविधा का लाभ उठाने के

हकदार होंगे। सदस्यों के बोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 पर कंपनी की चकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 25 सितंबर, 2022 को सुबह 9 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। 27 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वीटिंग की अनुमति नहीं होगी और एक बार सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

42 के अनुसरण में एतद्वारा नोटिस भी दिया जाता है, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर चुक बुधवार, 21 सितंबर, 2022 से बुधवार, 28 सितंबर, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा। ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न/शिकायत, यदि कोई हो, तो ईमेल के माध्यम से

> द मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड (एम.के. मदन)

8 सितंबर, 2022

## रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड

सीआईएन : L18101DL1989PLC034528 पंजी. कार्यालय : ढीडी-14, नेहरू एन्वलेव, कालकाजी पोस्ट आफिस के सामने,

नई दिल्ली-110019 ई-मेल : company.affairs@ribatextiles.com, वेबसाइट : www.ribatextiles.com फोन: 011-26236986

# 34वीं वार्षिक आम बैठक,

और कॉरपेरिट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021,

बक क्लोजर तथा रिमोट ई-वोटिंग एतदहारा सचना दी जातो है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागु प्रावधानीं

19/2021.21/2021 और 02/2022 (एमसीए परिपत्र) के साथ पठित सेबी (सचीबद्धता दापित्व एवं उदघाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा भारतीय प्रतिभृत एवं विनियम बोर्ड हारा जारी परिपन्न संख्या सेबी SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79、SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 湖で SEBL/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (सेबी परिपत्र) के अनपालन में एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड ('कंपनी') की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को सुबह 10:00 बजे अम स्थान पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना चीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो चिज्ञल साधनों (ओएबीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। नोटिस और चार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत है। वर्ष 2021-22 के लिए एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 07 सितंबर 2022 को पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.ribatextiles.com पर और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। आगे सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी। (एलओडीआर), 2015 के नियम 42 के अनसार, एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर टांसफर चक्र शनिवार, 24 सितंबर, 2022 से शक्रवार, 30 सितंबर, 2022 ( दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा। सेबी (एसओडीआर), 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के अनुसार, एजीएम में किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम करने के लिए कंपनी रिमोट ई-योटिंग सुविधा और एजीएम के दौरान ई-योटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-योटिंग और ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं जिसे सदस्यों को ईमेल किया जा रहा है। शेयरधारकों को ई-वेटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी ने सीडीएसएल की सेवाएं ग्रहण की हैं।

इसके अलावा, एजीएम की सचना, जिसमें यजर आईडी और पासवर्ड के बारे में विवरण और ई-वोटिंग के निर्देश शामिल हैं, पहले ही सदस्यों को भेजे जा चुके हैं। कंपनी के शेयरधारकों के मादान के लिए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म मंगलाबार, 27 सिसंबर, 2022 (सुबह 10:00 बजे) (भा.मा.स.) खुलेगा और गुरुवार, 29 सिसंबर, 2022 (5:00 बजे) (भा.मा.स.) को समाप्त होगा। कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 तक भौतिक रूप में या डीमैंट रूप में शेयर धारण करने वाले एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। उक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य वन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, heldesk.evotina@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या 022-23058542/Bectairta@email.com पर कॉल करके ई-वीटिंग के लिए अपना युजर आईडी और पासवर्ड भेजकर प्राप्त कर सकता है। सदस्य, जो एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना बोट डालेंगे, वे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (बीसी)/अन्य ऑडियो विजञ्जल साधनों (ओएबीएम) के माध्वम से बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे एजीएम में अपना बोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे। धारक, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, नीटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रोडेंशियल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं:

 भौतिक शेयरधारकों के लिए- कपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की ख़-सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की ख़-सत्यापित स्कैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण ईमेल हारा आरटीए को Beetalrta@gmail.com या कम्पनी को Company affairs@ribatextiles.com पर प्रदान करें।

डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपनी इंमेल आईडी

 व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपडेट करें जो ई-वीटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्षअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्व है।

4. ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न या जिकायत को कंपनी को ईमेल आईडी Company.affairs@ribatextiles.com पर संबोधित किया जा सकता है। श्री विशाल गमा. मैसर्स विशाल गमा एंड एसोसिएटस के प्रोपराइटर और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या 39686) को रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच के

लिए स्कटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

स्थानः पानीपत

दिनांकः ०७ सितंबर, २०२२

(आशा गर्ग)

अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक

टांस इंडिया हाउस इम्पक्स लिमिटेड (पूर्व का आईओ सिस्टम लिमिटेड)

सीआईएन: L74110UP1987PLC008764 **पंजीकृत कार्यालय:** कार्यालय संख्या 1109, कॉर्पोरेट पार्क टॉवर, ए/1, प्लॉट नंबर 7ए/1, सेक्टर 142, नोएडा

> गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. 201301 भारत कार्षोरेट कार्यालयः बी-1101, टाइटेनियम स्क्वायर, बी/एच सर्वेश्वर टावर, सामने बी.एम.डब्ल्यू, शोरूम, थलतेज, अहमदाबाद 380054 गुजरात, भारत ईमेल: compliance@tihil.co.in; दूरभाष: +91-79-46008108

एतदहारा सुचना दी जाती है कि ट्रांस इंडिया हाउस इम्पेक्स लिमिटेड (पूर्व का आईओ सिस्टम लिमिटेड) के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 1.30 बजे आयोजित की जाएगी

 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।

 श्री इरफान कुरैशी (डीआईएन: 09494589) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्निवृक्ति का प्रस्ताव देंगे। 3. सांविधिक लेखा परीक्षक मैससं गुप्ता गर्ग और अग्रवाल, चार्टर्ड लेखाकार, नोएडा, दिल्ली की

श्री आदित्य वी. पटेल (डीआईएन: 09211052) को अतिरिक्त निदेशक से व्यावसायिक श्रेणी के

तहत गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियमित करना। 2. अतिरिक्त निदेशक से व्यावसायिक श्रेणी के तहत गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में सुश्री

निधि बंसल (डीआईएनः 09693120) को नियमित करना। कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रकोप को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एक मानदंड हैं और कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 13 अप्रैल, 2020 के बाद परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और परिपन्न संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपन्न') और सेवी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 , और परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2020/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और समय-समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्र, ईजीएम/एजीएम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति। की आवश्यकता नहीं है और आम बैठक आयोजित की जाती है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम बैटक ('एजीएम') का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है और सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी ईजीएम/एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 34वीं एजीएम

के लिए परिकल्पित स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय कार्यालय संख्या 1109, कॉपेरिट पार्क टावर, ए/1, प्लॉट नंबर 7ए/1, सेक्टर 142, नोएडा गीतम बुद्ध नगर, उ.प्र. 201301 में होगा। 'एमसीए' हारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, इस एजीएम के लिए सदस्यों को उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, कॉरपोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियक्त करने और वहां भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार हैं। इसलिए, एजीएम का प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पची और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न

कंपनी ने मास सर्विसेज लिमिटेड, रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंटों हारा प्रदान की गई वीसी सविधा के माध्यम से सदस्यों को 34 वीं एजीएम में भाग लेने में सक्षम बनाया है। सदस्यों की भागीदारी के लिए निर्देश बाद के पैराग्राफों में दिए गए हैं। वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की अनुमति पहले आओ-पहले पाओं के आधार पर दी जाएगी। एजीएम के दौरान मतदान की सविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी के माध्यम से एजीएम में

उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीकृत फोलियो नंबर का उल्लेख करते। हुए (क) अपने बैंक खाते का विवरण/बैंक खाते में परिवर्तन, यदि कोई हो, और (ख) उनके पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, का हवाला देते हुए, पिन कोड नंबर के साथ कंपनी के रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मास सविसंज लिमिटंड, ('आरटीए'), टी-34, दूसरी मौजल, ऑखला ऑद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली110 020 दूरभाष: 011-26387281/82/83 फैक्स: 011-26387384 को तुरंत

अधिकत प्रतिनिधियों के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के उच्छक कॉपोरेंट सदस्यों से अनरोध किया जाता है कि वे बोर्ड या शासी निकाय के संकल्प की विधिवत प्रमाणित प्रति की स्कैन की हुई प्रति मीटिंग से कम से कम 48 घंटे पहले भेजें जो प्रतिनिधियों को एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करती है ताकि उक्त संकल्प hetidshah@gmail.com और एक प्रति कम्पनी को iosystembuz@gmail.com पर संवीधक को ईमेल किया जा सके।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी। एमसीए परिपत्रों के अनुसार, सदस्य यह भी ध्यान दें कि 34वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना और

वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 कंपनी की वेबसाइट www.tihil.co.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। । वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य ईमेल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए iosystembuz@gmail.com पर

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 24 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल)

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के प्रायधान और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) चिनियम, 2015 के चिनियम 44 के अनुसार, कंपनी ने सदस्यों को 34वीं वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वीट डालने के लिए पात्रता दर्ज करने की कट ऑफ तिथि शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 निधारित की है।

रिमोट ई-चोटिंग की अवधि रविवार, 25 सितंबर, 2022 (सुबह 09:00) से शुरू होगी और गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होगी। विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रतीक	प्रतिभृति का प्रकार	बुक वलोजर	उद्देश्य
बीएसई: 523752	इक्किटी	शनिवार, 24 सितंबर, 2022 से शुक्रचार, 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) कट ऑफ तिथि: शुक्रचार, 23 सितंबर, 2022	34ची एजीएम चीसी/ओएजीएम के माध्यम से 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 1.30 बजे निर्धारित है।

ट्रांस इंडिया हाउस इम्पेक्स लिमिटेड के लिए

इरफान करेशी

(निदेशक)

बयंक एस. जॉली दिनांक : 05 सितंबर, 2022 (निदेशक) स्थानः नोएडा दीआईएन: 09366175 दीआईएनः ०१४१४५८१

बक क्लोजर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेवी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम

helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या 1800 22 5533 पर कॉल करके संबोधित बोर्ड के आदेशानुसार

> वीपी, सीएस और अनुपालन अधिकारी एसीएस-295

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 6 सितंबर, 2022